



## 22389 - चाशत की नमाज़ का समय

---

### प्रश्न

इशराक़ की नमाज़ और चाशत की नमाज़ अदा करने का उचित समय क्या है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

### इशराक़ की नमाज़ और चाशत की नमाज़ के बीच अंतर

इशराक़ की नमाज़ : दरअसल चाशत की नमाज़ ही है जो अपने समय की शुरुआत ही में अदा की जाए। ये दो अलग-अलग नमाज़ें नहीं हैं। इसे इशराक़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सूर्य के उगने (शूरुक़) और उसके थोड़ा बुलंद होने के बाद ही अदी किया जाता है।

शैख़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने कहा :

“इशराक़ की नमाज़ : यह अपने समय की शुरुआत में अदा की जाने वाली चाशत की नमाज़ ही है।” (मजमूओ फ़तावा अश-शैख़ इब्ने बाज़, 11/401).

### चाशत की नमाज़ का समय कब शुरू होता है?

चाशत की नमाज़ का समय सूर्य के उदय होने और उसके थोड़ा बुलंद होने से लेकर ज़ुहर की नमाज़ के समय से थोड़ा पहले तक है।

शैख़ इब्ने उसैमीन ने इसका अनुमान यह लगाया है कि यह सूरज उगने के पंद्रह मिनट बाद से लेकर ज़ुहर की नमाज़ से दस मिनट पहले तक है। (अश-शर्हूल मुम्ते' 4/122).

यह सब समय चाशत की नमाज़ का समय है।



## चाशत की नमाज़ के लिए सबसे अच्छा समय

सूरज की गर्मी तेज़ होने के बाद चाशत की नमाज़ पढ़ना सबसे अच्छा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : “अव्वाबीन (चाशत) की नमाज़ उस समय (अदा करना बेहतर) है जब सूरज की गर्मी इतनी तीव्र हो जाए कि ऊँट के बच्चों के पैर जलने लगें।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 748) ने रिवायत किया है।

फतावा शैख इब्ने बाज़ (11/395).

विद्वानों ने इसका अनुमान दिन के एक चौथाई भाग के बीतने, यानी सूर्योदय और ज़ुहर की नमाज़ के बीच के आधे समय के बीतने से लगाया है।

देखें : अल-मजमू' लिन-नववी (4/36), अल-मौसूअह अल-फिक्रहय्यह अल-कुवैतिय्यह (27/224)

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।